

**Unit IV**

15. Explain concept of all pair shortest path.

**Unit V**

16. Explain Hash Table.

This question paper contains 4+2 printed pages]

**BCA-204**

**B.C.A. (Second Year) EXAMINATION, 2018**

**DATA STRUCTURE USING C**

**Time allowed : Three Hours**

**Maximum Marks : 100**

**Part A (खण्ड 'अ') [Marks : 20]**

*Answer all questions (50 words each).*

*All questions carry equal marks.*

सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 50 शब्दों से अधिक न हो। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

**Part B (खण्ड 'ब') [Marks : 50]**

*Answer five questions (250 words each),*

*selecting one question from each Unit.*

*All questions carry equal marks.*

प्रत्येक इकाई से एक प्रश्न चुनते हुए, कुल पाँच प्रश्न कौजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 250 शब्दों से अधिक न हो। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

**Part C (खण्ड 'स')** [Marks : 30]

Answer any two questions (300 words each).

All questions carry equal marks.

कोई दो प्रश्न कीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 300 शब्दों से अधिक न हो। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

**Part A**

**Unit I**

- (i) What is double ended queue ?
- (ii) What is use of POST FIX Expression ?

**Unit II**

- (iii) Define Sparse Matrix.
- (iv) What is Realloc Operation ?

**Unit III**

- (v) Which Tree Traversal is simple to represent using recursion technique ?

BCA-204

2

- (vi) Give two applications of Tree.

**Unit IV**

- (vii) What is advantage of Orthogonal representation ?
- (viii) Why is Reflexive Closure used ?

**Unit V**

- (ix) In which situation is quick sort used ?
- (x) In which situation is heap sort used ?

**Part B**

**Unit I**

2. Write a C program to reverse a stack using recursion.

Or

3. Write a program to check of expression is correctly parenthesized.

BCA-204

3

P.T.O.

**Unit II**

4. Write a program to delete alternate nodes of Linked List.

Or

5. Write a program to implement priority queue using doubly linked list.

**Unit III**

6. Write a program to find largest value in each level of Binary Tree.

Or

7. Write a program to implement BST (Binary Search Tree).

**Unit IV**

8. Write a program to Implement BFS.

Or

9. Write a program to Implement DFS.

**Unit V**

10. Explain Heap Sort.

Or

11. What are key advantages of quick sort, Insertion sort and Merge sort ?

**Part C**

**Unit I**

12. Write a program to implement stack.

**Unit II**

13. (a) Compare malloc and calloc.  
(b) Discuss application of linked list.

**Unit III**

14. Write a program to implement post order traversal using non-recursive technique.